



Amit



Renu

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121112301


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
03/03/1984 :	जन्म तिथि	: 20/06/1987
शनिवार :	दिन	: शनिवार
घंटे 23:20:00 :	जन्म समय	: 09:15:00 घंटे
घटी 41:08:28 :	जन्म समय(घटी)	: 09:38:16 घटी
India :	देश	: India
Jalandhar :	स्थान	: Sultanpur Lodhi
31:19:00 उत्तर :	अक्षांश	: 31:15:00 उत्तर
75:34:00 पूर्व :	रेखांश	: 75:20:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:27:44 :	स्थानिक संस्कार	: -00:28:40 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
06:52:36 :	सूर्योदय	: 05:24:47
18:27:10 :	सूर्यास्त	: 19:35:21
23:37:54 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:40:53
तुला :	लग्न	: कर्क
शुक्र :	लग्न लग्नाधिपति	: चन्द्र
मीन :	राशि	: मीन
गुरु :	राशि-स्वामी	: गुरु
पू०भाद्रपद :	नक्षत्र	: रेवती
गुरु :	नक्षत्र स्वामी	: बुध
4 :	चरण	: 3
साध्य :	योग	: शोभन
बव :	करण	: वणिज
दी-दीपांकर :	जन्म नामाक्षर	: चा-चांदनी
मीन :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: मिथुन
विप्र :	वर्ण	: विप्र
जलचर :	वश्य	: जलचर
सिंह :	योनि	: गज
मनुष्य :	गण	: देव
आद्य :	नाड़ी	: अन्त्य
सर्प :	वर्ग	: सिंह

## ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
गुरु 3वर्ष 7मा 29दि	22:59:40	तुला	लग्न	कर्क	23:09:30	बुध 5वर्ष 10मा 1दि
केतु	19:42:57	कुंभ	सूर्य	मिथु	04:37:53	सूर्य
02/11/2023	00:16:50	मीन	चंद्र	मीन	25:25:16	21/04/2020
01/11/2030	29:06:44	तुला	मंगल	मिथु	25:43:32	21/04/2026
केतु 30/03/2024	15:19:35	कुंभ	बुध	मिथु	23:05:30	सूर्य 09/08/2020
शुक्र 30/05/2025	14:38:07	धनु	गुरु	मेष	00:35:05	चन्द्र 07/02/2021
सूर्य 05/10/2025	23:03:55	मक	शुक्र	वृष	17:11:43	मंगल 15/06/2021
चन्द्र 06/05/2026	22:41:43	तुला व	शनि व	वृश्चि	23:23:14	राहु 10/05/2022
मंगल 02/10/2026	17:13:24	वृष व	राहु व	मीन	14:25:42	गुरु 26/02/2023
राहु 20/10/2027	17:13:24	वृश्चि व	केतु व	कन्या	14:25:42	शनि 08/02/2024
गुरु 25/09/2028	19:50:18	वृश्चि	हर्ष व	धनु	00:54:01	बुध 14/12/2024
शनि 04/11/2029	07:32:41	धनु	नेप व	धनु	13:10:34	केतु 21/04/2025
बुध 01/11/2030	08:16:10	तुला व	प्लूटो व	तुला	13:40:56	शुक्र 21/04/2026

व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट


23:37:54 चित्रपक्षीय अयनांश 23:40:53



## अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	विप्र	विप्र	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	जलचर	जलचर	2	2.00	--	स्वभाव
तारा	मित्र	विपत	3	1.50	--	भाग्य
योनि	सिंह	गज	4	0.00	--	यौन विचार
मैत्री	गुरु	गुरु	5	5.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	मनुष्य	देव	6	5.00	--	सामाजिकता
भकूट	मीन	मीन	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	आद्य	अन्त्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
<b>कुल :</b>			<b>36</b>	<b>29.50</b>		

कुल : 29.5 / 36



## अष्टकूट मिलान

Amit का वर्ग सर्प है तथा Renu का वर्ग सिंह है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।  
अष्टकूट मिलान के अनुसार Amit और Renu का मिलान अत्युत्तम है।

### मंगलीक दोष मिलान

Amit मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।  
Renu मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में द्वादश भाव में स्थित है।

**व्यये च कुजदोषः कन्यामिथुनयोरविना ।  
द्वादशे भौमदोषस्तु वृषतौलिकयोरविना ।।**

अर्थात् व्यय भाव में यदि मंगल बुध तथा शुक्र की राशियों में स्थित हो तो भौम दोष नहीं होता है।

क्योंकि मंगल Renu कि कुण्डली में द्वादश भाव में मिथुन राशि में स्थित है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**गुणबाहुल्ये भौमदोषो न विद्यते ।।**

यदि अधिक गुण मिलते हों तो मंगल दोष नहीं लगता।  
क्योंकि अधिक गुण मिलते हैं अतः मंगलीक दोष कट जाता है।  
Amit तथा Renu में मंगलीक मिलान ठीक है।

### निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

## अष्टकूट फलादेश

### वर्ण

Amit का वर्ण ब्राह्मण तथा Renu का वर्ण भी ब्राह्मण है अतः यह मिलान अति उत्तम है। जिसके कारण दोनों के गुण, स्वभाव, आदतें, पसन्द एवं नापसंद सभी एक-समान होंगी। दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल अनुरूप एवं अनुकूल साबित होंगे तथा दोनों हमेशा सामाजिक, व्यावसायिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

### वश्य

Amit का वश्य जलचर है एवं Renu का वश्य भी जलचर है अर्थात् दोनों का वश्य समान ही है। जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। दोनों की शारीरिक स्थिति, स्वभाव, पसंद एवं नापसंद एक ही तरह के होंगे। दोनों के बीच अगाध प्रेम एवं सौहार्द बना रहेगा तथा समान दृष्टिकोण, व्यवहार एवं आपसी समझ होने के कारण एक-दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक-दूजे के लिए ही बने हुए हैं तथा एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते रहेंगे। दोनों एक-दूसरे के कामों में मदद करते रहेंगे तथा परिवार की प्रगति एवं समृद्धि में महती योगदान देंगे।

### तारा

Amit की तारा मित्र तथा Renu की तारा विपत है। Renu की तारा विपत होने के कारण यह मिलान औसत मिलान ही है। यह मिलान Amit एवं उसके परिवार के लिए दुर्भाग्य एवं नुकसान का कारण बन सकता है। परन्तु कड़े एवं लगातार प्रयासों के बाद परिणाम सुखदायी हो सकता है। संभव है कि Renu का रुख सहयोगात्मक नहीं हो तथा आपसी विश्वास, प्रेम एवं समझ की कमी बनी रहे। अक्सर पति एवं पत्नी के बीच संघर्ष एवं लड़ाई-झगड़े रह सकते हैं तथा बच्चे भी इसका गलत फायदा उठावेंगे। जिसके कारण संभव है कि बच्चे योग्य एवं आज्ञाकारी नहीं हों।

### योनि

Amit की योनि सिंह है तथा Renu की योनि गज है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं है। इन दोनों योनि के बीच परस्पर शत्रुता का संबंध है। अतः यह मिलान बहुत बुरा मिलान ही रहेगा। जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर घरेलू हिंसा होती रहेगी। समय-समय पर एक दूसरे पर आघात भी कर सकते हैं। दोनों के बीच प्रेम एवं सौहार्द का अभाव बना रहेगा। दोनों के बीच परस्पर संदेह की भावना बनी रहगी। वैवाहिक जीवन में स्थिति मुकदमेबाजी तक भी जा सकती है। दोनों के बीच अलगाव की चाह भी हो सकती है। एक घर में रहकर स्थिति तलाक जैसी बनी रह सकती है। परस्पर अविश्वास की भावना के कारण वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण व कलेशपूर्वक बीतने की संभावना है। अतः अपने वैवाहिक जीवन को बचाये रखने के लिए दोनों को परस्पर विश्वास व सहयोग की आवश्यकता है अन्यथा घरेलू हिंसा होने

के कारण चोट भी लग सकती है। वैचारिक मतभेदों को बुद्धि बल तथा समझदारी से निपटाना चाहिये अन्यथा लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल निकाल पाना असंभव है।

### मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Amit एवं Renu दोनों के राशि स्वामी समान हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से अति उत्तम मिलान है। ज्यातिष की दृष्टि से यदि Amit एवं Renu दोनों के राशि स्वामी एक ही होने के कारण कुंडली मिलान में इसे अति उत्तम माना जाता है तथा पूरे 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। जिसके कारण दोनों में असीम प्रेम बना रहेगा तथा साथ ही दोनों जीवन के हर क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि वे स्वयं को आदर्श दम्पति साबित कर सकें। इनके बच्चे योग्य, आज्ञाकारी, सफल एवं यशस्वी होंगे।

### गण

Amit का गण मनुष्य तथा Renu का गण देव है। अतः यह मिलान उत्तम मिलान है। ऐसे मिलान में Renu सतोगुणी होंगी तथा उसका स्वभाव दयालु, मृदु, सौम्य तथा कोमल होगा है जो कि एक महिला का नैसर्गिक गुण है तथा अन्य सभी लोग भी इन्हीं गुणों की अपेक्षा करेंगे। जबकि दूसरी ओर Amit व्यावहारिक, मिलनसार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा महत्वाकांक्षी होंगे। जोकि इस भौतिकवादी, विश्व के पुरुष का नैसर्गिक गुण होता है। इन गुणों एवं योग्यताओं के कारण Amit अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार एवं समाज की हर अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम रहेंगे तथा सभी इनसे खुश भी रहेंगे।

### भकूट

Amit एवं Renu दोनों की राशि एक समान ही है इसलिये यह अति उत्तम मिलान है। ऐसा मिलान Amit एवं Renu तथा परिवार के चतुर्दिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हें अनेक रूपों में ईश्वरीय कृपा जैसे - सौभाग्य, सम्पत्ति, समाज में मान-सम्मान तथा योग्य संतान आदि प्राप्त होगी।

### नाड़ी

Amit की नाड़ी आद्य है तथा Renu की नाड़ी अन्त्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात् यह मिलान अति उत्तम मिलान है। इस मिलान में शरीर के दो महत्वपूर्ण अवयवों वात एवं कफ का संतुलन होता है। Amit की आद्य नाड़ी तथा Renu की अन्त्य नाड़ी अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ एवं मजबूत शरीर, दम्पति के आपसी प्रेम एवं समझदारी की द्योतक हैं। जिसके कारण आपकी संतान स्वस्थ, आज्ञाकारी एवं भाग्यशाली होंगी।

## मेलापक फलित

### स्वभाव

Amit एवं Renu की राशि जलतत्व युक्त मीन राशि है। अतः इसके प्रभाव से इनके मध्य स्वभावगत समानताएं विद्यमान रहेंगी जिससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन भी सुख एवं शांति से व्यतीत होगा। अतः यह मिलान उत्तम रहेगा।

Amit एवं Renu की राशि का स्वामी बृहस्पति है। अतः इसके शुभ प्रभाव से Amit एवं Renu के मध्य प्रगाढ़ मित्रता का भाव रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम आकर्षण तथा समर्पण की भावना होगी। साथ ही सुख दुख में एक दूसरे को पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर होंगे। Amit और Renu एक दूसरे के सदगुणों की मुक्त भाव से प्रशंसा करेंगे तथा कमियों की उपेक्षा करेंगे जिससे शांति एवं सदभावना बनी रहेगी तथा एक दूसरे के प्रति त्याग एवं विश्वास का भाव बना रहेगा।

Amit और Renu की राशियां परस्पर प्रथम भाव में पड़ती है शास्त्रानुसार यह शुभ भकूट माना जाता है तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह ग्रह स्थिति उत्तम रहती है। इसके शुभ प्रभाव से Amit और Renu एक दूसरे के लिए परम सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे तथा भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करके सुख पूर्वक इनका उपभोग करेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी। इस प्रकार Amit और Renu एक दूसरे के पूरक रहेंगे तथा प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

Amit और Renu का वश्य जलचर है। अतः इनकी अभिरुचियों में पूर्ण समानता होगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर आवश्यकताएं भी समान होंगी। फलतः कामसंबंधों में भी एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे जिससे दोनों सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे।

Amit एवं Renu का वर्ण ब्राह्मण है। अतः इसके प्रभाव से दोनों की प्रवृत्ति शैक्षणिक धार्मिक तथा अन्य सत्कार्यों में रहेगी तथा स्व बुद्धिमता एवं योग्यता से कार्य क्षेत्र में सुदृढ़ता बनाए रखने में समर्थ होंगे।

### धन

Amit और Renu की आर्थिक स्थिति पर तारा तथा भकूट का कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं होगा तथा सामान्य रूप से इच्छित धन एवं लाभ अर्जित करने में वे समर्थ होंगे तथा उनके लाभ मार्ग भी नित्य प्रशस्त रहेंगे। लेकिन Renu पर मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा फलतः यदा कदा इनके द्वारा आर्थिक स्थिति में अल्प समय के लिए दम्पति को विषमता का आभास हो सकता है।

Amit की प्रवृत्ति भी अनावश्यक व्यय करने की होगी तथा जुए या अन्य व्यसनों में वे अधिक व्यय करेंगे अतः यदि वे ऐसी प्रवृत्तियों की उपेक्षा करें तथा बुद्धिमतापूर्वक उपार्जित

धन को व्यय करें तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करते हुए वे अपना जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत करने में समर्थ हो सकेंगे।

### स्वास्थ्य

Amit आद्य तथा Renu अन्य नाड़ी में उत्पन्न हुई हैं। अतः अलग अलग नाड़ी होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे परन्तु मंगल के प्रभाव से दोनों को समय समय पर शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। इससे दोनों गुप्त रोग या धातु संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे तथा हृदय संबंधी कोई कष्ट भी हो सकता है। Amit की रतिक्रिया में शिथिलता रहेगी जबकि Renu की संभोग के प्रति उनके मन में उदासीनता का भाव रहेगा फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। अतः इस प्रभाव की न्यूनता के लिए Amit और Renu को नियमित रूप से हनुमानजी की उपासना तथा मंगलवार के उपवास करने चाहिए।

### संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Amit और Renu का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त Amit और Renu के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Renu के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Renu को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Renu को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Amit और Renu सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Amit और Renu का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

### ससुराल-सुश्री

Renu के सास से प्रायः अच्छे संबंध रहेंगे। यद्यपि उनकी सास अन्य जनों के मामलों में कम ही हस्तक्षेप करने वाली महिला होंगी तथापि उनके कुछ सिद्धांत Renu के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं। साथ ही इन दोनों के मध्य कोई विशेष समस्या या मतभेद नहीं रहेंगे।

Renu अपने कुशल व्यवहार मधुर वाणी एवं सेवा भाव से ससुर को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही ननद एवं देवरों के साथ भी उनके संबंध मित्रता पूर्ण रहेंगे तथा उनको पूर्ण सहयोग एवं स्नेह प्रदान करेंगी। अतः उनका दिल जीतने में सफल

रहेंगी।

इस प्रकार Renu के प्रति उनके सास ससुर का दृष्टि कोण आत्मयीता से पूर्ण रहेगा तथा घर में उसे पूर्ण सुख सुविधा तथा स्नेह प्रदान करेंगे।

### ससुराल-श्री

Amit की अपनी सास से संबंधों में मधुरता रहेगी। साथ ही उनके प्रति श्रद्धा सम्मान एवं सहयोग का भाव रहेगा। Amit सपत्नीक समय समय पर ससुराल के लोगों से मिलने जाया करेंगे जिससे आपसी संबंधों में मधुरता की वृद्धि होगी। साथ ही Amit का व्यवहार उनके प्रति विनम्रता से युक्त रहेगा।

ससुर के साथ भी Amit के संबंधों में मधुरता का भाव रहेगा। साथ ही इन दोनों के मध्य दामाद ससुर की अपेक्षा पिता पुत्र का भाव अधिक रहेगा। Amit भी समय समय पर अपने समस्याओं के समाधान के लिए ससुर से सलाह लेते रहेंगे लेकिन साले तथा सालियों से संबंध विशेष अच्छे नहीं रहेंगे तथा उनसे यथोचित सम्मान तथा सहयोग की प्राप्ति अल्प मात्रा में ही होगी।

इस प्रकार ससुराल के लोगों का दृष्टिकोण Amit के प्रति अनुकूल रहेगा जिससे उनके आपसी संबंध अनौपचारिक रहेंगे।